

**Ref: SCRIP ID- SRGHFL, SCRIP CODE-534680, ISIN NO - INE559N01010**

Date: 09-08-2021

To,  
Department of Corporate Affairs  
BSE Ltd.  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai- 400001

Dear Sir,

**Subject: Publication of Newspaper Advertisement with regards to 22<sup>nd</sup> Annual General Meeting of the Company**

In Pursuant to captioned subject, please find enclosed herewith the copies of newspaper advertisement published by the Company in English-Financial Express (Delhi Edition) and Regional (Hindi) Newspaper-Business Remedies in compliance with the Ministry of Corporate Affairs General Circulars No. 02/2021 and 20 /2020 dated January 13, 2021 and May 05, 2020 respectively intimating that 22<sup>nd</sup> Annual General Meeting of the Company will be held on Friday September 3, 2021 at 12:15 pm 1ST through Video Conferencing / Other Audio Visual Means.

You are requested to take note of the same.

Thanking You,  
With Regards,

For SRG Housing Finance Limited

Sunaina Nagar  
Company Secretary  
M.No:A40754

**Enclosed:- a/a**

**KANAWA PAPER MILLS LIMITED**  
(Formerly known as Rama Paper Mills Limited)  
CIN: L2720DL1994PLC007114  
Regd. Off: 4th Km, Najibabad Road, Krishna District, Bijnor  
Uttar Pradesh-206111, Tel: +91-531-231300  
Corporate Office: 2/8 Ground Floor, East Park, Noida  
New Delhi-8, Tel: 011-43158250 Website: www.ramapaper.com

Notice is hereby given pursuant to Regulation 47(1)(a) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled on Saturday, 14th day of August, 2021 at 04.00 P.M. at our works at 4th Km, Sone, Najibabad Road, Krishna Dist. Bijnor (U.P.)

1. To consider and approve the Un-Audited Financial Results for the Quarter ended on 30th June, 2021.  
2. Any other matter as permitted by the Chair

Further, as per the Company's Code of Conduct for prevention of Insider Trading, the trading window for dealing in securities of the Company is closed for all directors/officers/designated employees of the Company with immediate effect and will open 24 hours after the announcement of financial results for the Un-Audited Financial Results for the Quarter ended on 30th June, 2021.

By Order of the Board  
Himanshu Duggal  
Company Secretary

**SAMRAT FORGINGS LIMITED**  
CIN: U28910CH1981PLC004522  
Regd. Office: #406, First Floor,  
Sector 15-A, Chandigarh-160015  
Phone: 0172-2774555, 9257240444  
E-mail: info@samratforgings.com  
Website: www.samratforgings.com

**NOTICE**  
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, 14th August, 2021, inter-alia to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended 30th June, 2021.

The information contained in this notice is also available on the website of the Company i.e. www.samratforgings.com and website of the Stock Exchange i.e. www.bseindia.com

For Samrat Forgings Ltd. Sd/-  
(Sandeep Kumar)  
Company Secretary

Date: 06.08.2021  
Place: Chandigarh

**EMERGENT INDUSTRIAL SOLUTIONS LIMITED**  
(formerly Emergent Global Edge and Services Limited)  
CIN: L18692DL1983PLC02722  
Regd. Office: 9-B, 'Sagar', 6, Tikka Marg, New Delhi-110 001;  
Phoness: (91) 11 2378 2862, 2338 2592  
Fax: (91) 11 2378 2866, 23381914  
E-mail: sds@emrgroup.com, website: www.eesi.in

**NOTICE**  
Notice is hereby given pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, 12th August, 2021, inter-alia, to consider and approve the un-audited consolidated and standalone financial results of the company for the quarter ended on 30.06.2021 and others.

This information is available on the website of the Company at www.eesi.in and Bombay Stock Exchange Limited at www.bseindia.com

For Emergent Industrial Solutions Limited  
Date: 04.08.2021 Sd/-  
Place: New Delhi (Sabina Nagpal)  
Company Secretary and Law Officer

**Innovative Tech Park Limited**  
CIN: L74999HR1989PLC032412  
Registered Office: Plot No. - 51, Roz  
Ka Meo Industrial Area, Sohna,  
Distt. Gurugram 122103 (Haryana)  
Website: www.itplgroup.com,  
Email: grievance@itplgroup.com  
Tele. No.: 0120-7195236-239.

**NOTICE**  
Pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please be informed that Meeting of Board of Director of the Company will be held at 803-805, 8th Floor, Tower-2, Asstotech Business Crestera, Plot No. 22, Sector 135, Noida-201301 on Saturday, the 14th day of August, 2021 inter-alia, to consider and approve the following:

- To consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter ended on 30th June, 2021;
- To consider and take on record the Limited Review Report on Un-audited Financial Results of the Company for the quarter ended on 30th June, 2021; and
- To consider and approve any other agenda item as place on Board.

Pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and as per the BSE circular LIST/COMP/1/2019-20 dated April 2, 2019, the Trading Window for the securities of the Company has already been closed from July 1, 2021 till 48 hour after the declaration of un-audited Financial Results i.e. August 16, 2021. Accordingly, the Trading Window shall reopen on August 17, 2021.

For Innovative Tech Park Limited Sd/-  
Place: Noida Mukesh Kumar  
Date: 06.08.2021 Company Secretary

**JAUSS POLYMERS LIMITED**  
CIN: L74899HR1987PLC066065  
Registered Office: Plot No. - 51, Roz  
Ka Meo Industrial Area, Sohna, Distt. Gurugram 122103 (Haryana)  
Website: www.jaustpolymers.com,  
Email: response@jaustpolymers.com  
Tele. No.: 0120-7195236-239.

**NOTICE**  
Pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please be informed that Meeting of Board of Director of the Company will be held at 801-802, 8th Floor, Tower-2, Asstotech Business Crestera, Plot No. 22, Sector 135, Noida-201301 on Saturday, the 14th day of August, 2021 inter-alia, to consider and approve the following:

- To consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter ended on 30th June, 2021;
- To consider and take on record the Limited Review Report on Un-audited Financial Results of the Company for the quarter ended on 30th June, 2021; and
- To consider and approve any other agenda item as place on Board.

Pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and as per the BSE circular LIST/COMP/1/2019-20 dated April 2, 2019, the Trading Window for the securities of the Company has already been closed from July 1, 2021 till 48 hour after the declaration of un-audited Financial Results i.e. August 16, 2021. Accordingly, the Trading Window shall reopen on August 17, 2021.

For Jaus Polymers Limited Sd/-  
Place: Noida Rahul Kwatra  
Date: 06.08.2021 Company Secretary

**Punjab & Sind Bank**  
Punjab & Sind Bank  
Punjab & Sind Bank

**ZONE - DELHI ZONE-I, SIDDHARTHA ENCLAVE, ASHRAM GURUGRAM, NEW DELHI-110014 CHOKKENDOWLI**

The Sale Notice was published on 31.07.2021 in this newspaper. **Date & Time of E-Auction on 01.09.2021 12:00 AM TO 03:00 PM is wrong. Please read as Date & Time of E-Auction on 01.09.2021 12:00 PM TO 03:00 PM**

Other terms & conditions will be same.

Date: 06.08.2021 AUTHORISED OFFICER,  
Place: Delhi NCR PUNJAB & SIND BANK

**punjab national bank**  
punjab national bank  
punjab national bank

Circle Sastra Centre, 7, Bikhaji Cama Place, New Delhi-110066  
E-Mail: cs8320@pnb.co.in & cosdeird@pnb.co.in

**POSSESSION NOTICE**  
(under section 13(4) of Securitization Act, 2002, read with rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules 2002/for Immovable Property)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of Punjab National Bank under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13 (2) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice dated 12.02.2021 calling upon the Borrower M/s Sidhu Tour & Travels having Office at: 37, First Floor, DDA Local Shopping Complex, Mangia Market, Near Post Office, Kalkaji, New Delhi-110019 to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 53,41,003.16 (Rs Fifty Three Lakhs Forty One Thousand Three Rupees and Sixty One Paise Only) as on 31.03.2020 with further interest w.e.f. 01.04.2020 with incidental expenses, cost, charges etc. within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The Borrower(s)/Co-Borrower (s)/Mortgagor(s)/ Guarantor(s) above said having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s)/Co-Borrower (s)/Mortgagor(s)/ Guarantor(s) and the Public in General that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13 (4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on the 4th August of the year 2021.

The Borrower(s)/Co-Borrower (s)/ Mortgagor(s)/ Guarantor(s) above said in particular and the Public in General is hereby cautioned not to deal with the properties and any dealings with the properties will be subject to the charge of Punjab National Bank for an amount Rs. 53,41,003.16 (Rs Fifty Three Lakhs Forty One Thousand Three Rupees and Sixteen paise Only) as on 31.03.2020 with further interest w.e.f. 01.04.2020 together with further interest thereon at the contractual rate of interest till the date of payment & expenses thereon.

The Borrower(s)/Co-Borrower (s)/ Mortgagor(s)/ Guarantor(s)'s attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

**DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY**

Equitable Mortgage of Ground Floor (Right Side) of Property Bearing No.-B-8, Kailash Colony, New Delhi-110048 Measuring 221.1485 Sq. Mtrs. Standing in the name of Smt. Mandeeep Kaur.

Date : 04-08-2021, Place : New Delhi Authorized Officer, Punjab National Bank

**INTEGRATED TECHNOLOGIES LIMITED**  
Regd. Off: C-24, Defence Colony,  
New Delhi-110024, India  
Tel: +91-11-41552579,  
Email: info@integratedtech.in  
Website: www.integratedtech.in  
CIN: L31909DL1995PLC271776

**Intimation of Board Meeting & Closure of Trading Window**  
Pursuant to Regulation 29 and other applicable regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please note that the meeting of the Board of Directors of Integrated Technologies Limited will be held on Saturday, 14th August, 2021 at 2.00 P.M. at the registered office of the company at C-24, Defence Colony, New Delhi-110024, to consider and approve the Unaudited Financial Results for the quarter ended on 30th June, 2021 and matters connected therewith.

For Integrated Technologies Limited Sd/-  
Sneh Chauhan  
Date: 06.08.2021 (Company Secretary & Compliance Officer)

**SUDEV INDUSTRIES LIMITED**  
Registered Office: B/126, Sector-18, Noida,  
Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh-201301  
CIN: No. L25281UP1992PLC018150  
Tel. No. 9920370255. Website: www.sudev.co.in  
E-mail: info@sudev.co.in

**NOTICE**  
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a Meeting of Board of Directors of the Company will be held on Friday, 13th August, 2021, at 03.30 p.m. at its Registered office at B/126, Sector-18, Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh - 201301, inter-alia to consider and take on record the Un-Audited financial results of the Company for the First quarter ended on 30th June, 2021.

This Intimation is also available on the Company's website at www.sudev.co.in and on the Stock Exchange website at www.bseindia.com.

Further, in accordance with the SEBI (Prevention of Insider trading) Regulations, 2015 and the Company's Code of Conduct for Prevention of Insider Trading, the Trading Window for dealing in the Company's securities was closed from Thursday 01st July, 2021 and will open 48 hours after the said financial results are declared to the Stock Exchanges.

For Sudev Industries Limited Sd/-  
Rajiv Agarwal  
Date: 06.08.2021 (Director)  
Place: Uttar Pradesh

**S.R. Industries Limited**  
CIN: L29246PB1989PLC006631  
Regd. Off: E-217, Industrial Area, Phase 8B, Mohali,  
Punjab - 150071 Website: www.srfotweares.com  
Email: info@srfotweares.com Tel: +91 177 4820266

**NOTICE**  
Notice is hereby given in terms of Regulation 29 read with 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, given that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, August 13, 2021, inter alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2021.

This information is also available on the Company's website at www.srfotweares.com and on the website of the stock exchange, where securities of the company are listed, viz. BSE Ltd. www.bseindia.com

For S. R. Industries Ltd. Sd/-  
Amit Mahajan  
Date: 06.08.2021 Chief Financial Officer  
Place: Mohali DIN: 00038593

**SHRI KALYAN HOLDINGS LIMITED**  
CIN: L67120RJ1993PLC061489  
Regd. Office: B-19, Lal Bahadur Nagar, Malviya Nagar,  
Jaipur-302017 (Rajasthan) \* Tel. No & Fax : 0141-4034062  
Website: www.shrikalyan.co.in, E-Mail: shrikalyan25@hotmail.com

**NOTICE**  
Pursuant to Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, 14th day of August, 2021 at 04.00 P.M. at the Registered office of the Company situated at B-19, Lal Bahadur Nagar, Jaipur-302017 (Rajasthan), inter alia, to approve the un-audited financial results of the Company for the quarter ended on 30th June, 2021 and to take on record the Limited Review Report thereon.

The details are also available on the website of the Company i.e. "www.shrikalyan.co.in" and on the website of stock exchange i.e. "www.bseindia.com".

For Shri Kalyan Holdings Limited Sd/-  
Shikha Agarwal  
Date: 06.08.2021 (Company Secretary & Compliance Officer) M. No.: A37304

**PAN INDIA CORPORATION LIMITED**  
Regd. Off: 711, 7th Floor, New Delhi House, 27,  
Barakhamba Road, New Delhi-110001  
CIN: L72200N11984PLC017510

**NOTICE**  
Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Regulation 29 read with Regulation 47 and other applicable regulation of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015, the Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, 12th August, 2021 at 02:30 P. M. at the registered office of the company at 711, 7th Floor, New Delhi House, 27, Barakhamba Road, New Delhi-110001 inter-alia, to consider, approve & take on record the Un-Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter Ended 30th June, 2021 and any other item of business as mentioned in agenda.

This information is also available on the website of the company at www.panindiacorp.com and on the websites of the Stock Exchanges where the shares of the company are listed at www.bseindia.com.

For Pan India Corporation Limited Sd/-  
Vijay Pal Shukla  
Date: 06.08.2021 Managing Director  
DIN: 01379220

**POSSESSION NOTICE (for Immovable property) Rule 8-(1)**  
Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of IIFL Home Finance Limited (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.)(IIFHL) under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, a Demand Notice was issued by the Authorized Officer of the company to the borrowers/co-borrowers mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of IIFHL for an amount as mentioned herein under with interest thereon. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, if the borrower clears the dues of the "IIFHL" together with all costs, charges and expenses incurred, at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured assets shall not be sold or transferred by "IIFHL" and no further step shall be taken by "IIFHL" for transfer or sale of the secured assets.

Name of the Borrower/ Delhi Noida Branch	Description of Secured Asset (Immovable Property)	Total Outstanding Dues (Rs.)	Date of Demand Notice	Date of Possession
Mr. Jagpal Singh Dewasth, Mrs. Renu Chaudhary (Prospect No. 721114)	All that piece and parcel of the property being: T2/07/04, admeasuring sq.ft. Lake Side Heights Tower No. 112, Lake Drive, Lake Drive TDI Lake Grove City, Kundali, Sonapat, Haryana, Hundred Thirty Six Only.	Rs. 25,14,256/- (Rupees Twenty Five Lacs Fourteen Thousand Two Hundred Fifty Six Only)	23-Feb-2020	03-Aug-2021
Mr. Jagpal Singh Dewasth, Mrs. Renu Chaudhary (Prospect No. 721114)	All that piece and parcel of Flat No-T-12/01/04/ Tower No- 112, Lake Drive, Lake Drive TDI Lake Grove City, Kundali, Sonapat, Haryana, Hundred Thirty Six Only.	Rs. 31,77,720.00/- (Rupees Thirty One Lakh Seventy Seven Thousand Seven Hundred Twenty Only)	11-Jan-2021	03-Aug-2021
Mr. Amit Jais, Mr. Kamal Jais, Mr. Vijay Kumar Jain, and Mr. Vijay Kumar Jain (Prospect No. 724549)	All that piece and parcel of the property being: DNR No-T-3/06/02, Floor, AIT-3, Lake Side Heights -KXH, TDI Lake Grove City, Kundali, Sonapat, Haryana, Hundred Twenty Four Only.	Rs. 42,42,824/- (Rupees Forty Two Lakh Forty Two Thousand Eight Hundred Twenty Four Only)	18-Feb-2021	03-Aug-2021
Mr. Chinty Gauba, Meera Interiors And Designers and Mrs. Monika Gauba (Prospect No. 728919)	All that piece and parcel of: Unit No:W-145, Rs. 38,43,787/- (Rupees Thirty Eight Lacs Four Thousand Seven Hundred Thirty Eight Only) admeasuring 1750 sq. ft., Duplex, Water Side Lake Fort, Lake Grove City, Kundali Sonapat, Haryana, Hundred Thirty Six Only) 131028, India	Rs. 38,43,787/- (Rupees Thirty Eight Lacs Four Thousand Seven Hundred Thirty Eight Only)	18-Mar-2021	03-Aug-2021

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, if the borrower clears the dues of the "IIFHL" together with all costs, charges and expenses incurred, at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured assets shall not be sold or transferred by "IIFHL" and no further step shall be taken by "IIFHL" for transfer or sale of the secured assets.

For IIFL Home Finance Limited (IIFL) Sd/-  
Authorized Officer

**PUBLIC NOTICE**  
This is to inform the General Public that original Share Certificate No 01, Distinctive Numbers from 1 to 8000 and Share Certificate No 03 Distinctive Numbers from 10001 to 142000 of Mr. Harsh Chander Chowdhary a member of Epplone Engineers Private Limited, having Registered Office at B/126, Sector-18, Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh - 201301, inter-alia to consider and approve the Unaudited Financial Results for the quarter ended on 30th June, 2021 and matters connected therewith.

For Sudev Industries Limited Sd/-  
Rajiv Agarwal  
Date: 06.08.2021 (Director)  
Place: Uttar Pradesh

**USS GLOBAL LIMITED**  
(Formerly known as SURNIDH INVESTMENT LIMITED)  
CIN: L74900DL1993PLC056491  
Regd. Office: Office No. 400, ITL Twin Towers, B-9, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, New Delhi - 110034  
Phone: 011-45824477  
Website: www.ussglobalindia.com  
E-mail: sumidhinvestments@gmail.com

**Notice of 5/2021 Board Meeting**  
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Saturday, 14th August, 2021 at 2:00 P.M. at the Registered Office of the Company, inter alia, to consider, approve and take on record the Un-Audited Financial Results of the Company for the first quarter ended June 30, 2021.

The said information is also available on the Company's website at www.ussglobalindia.com and shall also be available on the website of the stock exchange at www.mse.in.

By Order of the Board,  
USS Global Limited  
(Formerly Known as Sumidhi Investment Limited) Sd/-  
Mohit Gupta  
Date: 06 August, 2021 Managing Director  
DIN: 02366798

**BITS LIMITED**  
Regd. Off: 711, 7th Floor, New Delhi House,  
27, Barakhamba Road, New Delhi-110001  
CIN: L27200DL1992PLC241917

**NOTICE**  
Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Regulation 29 read with Regulation 47 and other applicable regulation of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015, the Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, 12th August, 2021 at 11:00 A.M. at the registered office of the company at 711, 7th Floor, New Delhi House, 27, Barakhamba Road, New Delhi-110001 inter-alia, to consider, approve & take on record the Un-Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter Ended 30th June, 2021 and any other item of business as mentioned in agenda.

This information is also available on the website of the company at www.bits.net.in and on the websites of the Stock Exchanges where the shares of the company are listed at www.bseindia.com.

For Bits Limited Sd/-  
Omprakash Ramashankar Pathak  
Date: 06.08.2021 Managing Director  
DIN: 01428320

**"Form No. INC-25A"**  
Advertisement to be published in the newspaper for conversion of Public company into a Private Company

Before the Regional Director, Ministry of Corporate Affairs, Northern Region

In the matter of the Companies Act, 2013, Section 14 of Companies Act, 2013 and Rule 41 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

AND

In the matter of M/s. One Qube Realtors Limited (Formerly known as Ashkit Properties Limited) having its registered office at Plot No. 422-B, Udyog Vihar, Phase IV, Village Dundaheera, Gurugram-122001, Haryana, India, ("Applicant" or "Company").

Notice is hereby given to the general public that the Company intends to make an application to the Central Government under Section 14 of the Companies Act, 2013 read with aforesaid rules and is desirous of converting itself into a Private Limited Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on Friday, 16th July, 2021 to enable the Company to give effect to such conversion.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change/status of the Company may deliver or cause to be delivered or sent by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of objection to the concerned Regional Director:

Dr. Raj Singh,  
B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003, India.  
within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the Applicant Company at its registered office at the address mentioned below:

Plot No. 422-B, Udyog Vihar, Phase IV, Village Dundaheera, Gurugram-122001, Haryana, India.

For and on behalf of the Applicant  
One Qube Realtors Limited  
Sd/-  
Mohit Arora  
Director  
DIN: 08100136  
Date: 06th August, 2021  
Place: Mumbai

**ABM INTERNATIONAL LIMITED**  
Regd Office: 10/60, Ind Area, Kirti Nagar, New Delhi-110015  
CIN: L51909DL1983PLC015585, Ph: 011-41426055, E-mail: vk Gandhi@abmintl.in, Website www.abmintl.in

**Extract of Statement of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the quarter ended 30th June, 2021** Rs. in Lakhs

Particulars	Standalone		Consolidated	
	Quarter Ended 30.06.2021 Unaudited	Year Ended 30.06.2021 Audited	Quarter Ended 30.06.2021 Unaudited	Year Ended 30.06.2021 Audited
Total Revenue	491.56	2021.23	4591.56	2021.23
Profit / (Loss) before Exceptional and extraordinary items and tax	-136.55	-79.55	1,187.04	-136.55
Share of profit/(loss) of associates	-	-	-0.10	-0.21
Profit / (Loss) before extraordinary items and tax	-136.55	-79.55	1,187.04	-136.65
Profit / (Loss) before tax	-136.55	-79.55	1,187.04	-136.65
Profit / (Loss) for the period from continuing operations	-136.55	-79.55	1,016.51	-79.76
Items that will be reclassified to profit or loss	-	-	-	(2.17)
Total Other Comprehensive Income/(Loss) for the period	-136.55	-79.55	1,014.34	-79.76
Total Comprehensive Income/(Loss) for the period	-136.55	-79.55	1,014.34	-79.76
Paid-up equity share capital	1176.00	1176.00	1176.00	1176.00
Other Equity	-	-	-	-
Earning Per equity share (of ₹10/- each):				
(1) Basic (Rs. Per Share)	-1.16	-0.68	8.63	-1.16
(2) Diluted (Rs. Per Share)	-1.16	-0.68	8.63	-1.16

**Notes:**

- The Above Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results as reviewed by Audit Committee and approved by Board at its meeting held on 6th August, 2021.
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the National stock exchange of India Limited under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of Stock Exchange, namely The National stock exchange of India Limited - https://www1.nseindia.com and the Company's website - http://www.abmintl.in.

for and on behalf of the Board of Directors  
ABM INTERNATIONAL LIMITED  
Sd/-  
(Virender Kumar Gandhi)  
Chairman and Managing Director  
DIN: 00244762

Date : 06.08.2021  
Place : New Delhi

**LWS KNITWEAR LIMITED**  
Regd. Office - G T Road - West,  
Ludhiana 141008 (PB), CIN-  
L1715PB1989PLC009315,  
Tele-01612744500  
Email- info@lwsknitwear.com,  
Website- www.lwsknitwear.com

**COMPANY NOTICE**  
Pursuant to Regulations 29 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors will be held on Saturday on 14th August, 2021 at 04.00 p.m. to consider, inter alia, Un-Audited Financial Results of the Company for the Quarter ended on 30th June, 2021. The said notice is also available on company's website www.lwsknitwear.com and may be available on the website of BSE Limited www.bseindia.com also.

For LWS KNITWEAR LIMITED Sd/-  
GIRISH KPOOR  
Date- Ludhiana Managing Director  
Place- 05.08.2021 DIN-01879017

**RAMA STEEL TUBES LTD.**  
Regd. Office: B-5, 3rd Floor, Main Road,  
Ghazipur, New Delhi-110096  
CIN: L2720DL1974PLC007114  
Tel. 011-43446600  
Email: investors@ramasteel.com  
Website: www.ramasteel.com

**NOTICE**  
Pursuant to Regulation 47(1) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, August 14, 2021, inter alia to consider and approve the un-audited standalone and consolidated financial results of the Company for the quarter ended 30.06.2021.

The information is also available on website of Company i.e. www.ramasteel.com; of BSE Ltd i.e. www.bseindia.com and of National Stock Exchange of India Ltd i.e. www.nseindia.com.

Further, Trading Window was closed from July 1, 2021 until the expiry of 48 hours after declaration of unaudited financial results of the company for the quarter ended on 30.06.2021.

For RAMA STEEL TUBES LIMITED Sd/-  
(Kapil Datta)  
Date: 06.08.2021 Company Secretary

**MIDAS INFRA TRADE LIMITED**  
Regd. Office: 301, 2633-2634,  
Bank Street, Karol Bagh, Delhi-110005,  
Ph. + 91 011-45005400  
CIN: L65910DL1994PLC062379

**NOTICE**  
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Regulations Requirements) Regulation, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, the 14th day of August, 2021 at its Registered office of the Company at 04.30 P.M. inter-alia, to consider and take on record Un-audited Standalone Provisional Financial Results for the quarter ended on 30.06.2021 and to consider the holding of 27th Annual General meeting of the shareholders of the Company and related matters thereto for the Financial Year ended 31st March, 2021.

The information contained in this notice is also available on the website of the Company i.e. www.mitl.org.in and the website of the Stock Exchange i.e. www.bseindia.com.

For Midas Infra Trade Ltd. Sd/-  
Date: 07.08.2021 PRAVEEN KUMAR  
Place : Delhi Company Secretary

**SRG HOUSING FINANCE LIMITED**  
321, S.M. Lodha Complex, Near Shastrji Circle, Udaipur (Rajasthan)-313001  
CIN: L65922RJ1999PLC015440 website: www.srghousing.com email : info@srghousing.com phone no: 0294-2561882, 2412609

**INFORMATION REGARDING 22nd ANNUAL GENERAL MEETING**  
Notice is hereby given that 22nd Annual General Meeting of the members of the Company will be held on Friday, 3rd September, 2021 at 12:15 P.M. through video conferencing ("VC") / other audio visual means ("OAVM") in compliance with Ministry of Corporate Affairs (MCA) circular dated January 13, 2021, May 5, 2020, April 13, 2020 and April 8, 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars") and SEBI circular dated January 15, 2021 and May 12, 2020 to transact the business as set out in the notice of the AGM.

The Notice of AGM along with the Annual Report 2020-21 will be sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/RTA/Depositories. Members may note that the aforesaid documents will also be made available on the Company's website www.srghousing.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com and no physical copies will be dispatched to the members.

Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only and shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of Companies Act, 2013. The Instructions for attending the AGM through VC/ OAVM and detailed manner of electronic voting is being provided in the Notice convening the AGM. The Company is providing remote e-voting facility and facility of e-voting system during the AGM to all the eligible members as per the applicable provision of the Act on all business items as set out in the Notice of AGM.

Those Members, who have not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting will be able to vote at the AGM through e-voting. The login credentials to cast vote through electronic voting shall be made available to the shareholders after updating their email addresses. In Case the Members who have not registered their email addresses with the Company/Depository, please contact your depository Participant (DP) and register your email address in your demat account, as per the process advised by your DP.

The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) as the agency for providing electronic voting facility and Video Conferencing Facility to conduct the AGM through VC/OAVM.

In case of any questions in connection with the e-voting or attending the meeting through VC/OAVM, Members may contact on toll free no.: 1800-222-990 and contact Santa Mota, Assistant Manager at 91 22 24994890; or send e-mail to SaritaM@nsdl.co.in or evoting@nsdl.co.in or Ms. Sunaina Nagar, Company Secretary of the Company, Tel: 0294-2561882 and email info@srghousing.com.

For SRG Housing Finance Limited Sd/-  
Sunaina Nagar  
Date: 06-08-2021 Company Secretary (M.No: A40754)  
Place: Udaipur

**COSMO FERRITES LIMITED**  
UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS Rs. in lacs

Particulars	Quarter Ended 30.06.2021 UNAUDITED	Quarter Ended 30.06.2020 AUDITED	Year Ended 31.03.2021 AUDITED
	Total Income from Operations	2,012	743
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	2		

